



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 1978/माघ 27, 1899

No. 41] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 1978/MAGHA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

साप्ताहिक सूचना सं० 11-ई दो सो (पी एन)/78

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1978

विषय :—बुले सामान्य लाइसेंस सं० 3 के अन्तर्गत भारत से सूती धागे का निर्यात ।

मि० सं० 2/6/77-ई :—उपरोक्त विषय पर सूती धागे की निर्यात नीति को निर्धारित
करने वाले समय-समय पर यथा संशोधित निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई (सी) प्रो,
1977/ए एम (40) दिनांक 16-2-1978 और साप्ताहिक सूचना सं० 16-ई डी सी (पी एन)/77
दिनांक 8-8-77 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. सूती धागे की निर्यात नीति के संबंध में सार्वजनिक सूचना सं० 16-ई टी सी (पी एन)/77 दिनांक 8-8-77 के आंशिक संशोधन करने पर यह निष्कर्ष किया गया है कि निर्धारित उच्चतम सीमा के अतिरिक्त सभी गन्तव्य स्थान के लिए सभी प्रकार के सूती धागे और 6एस के काउन्ट्स और साथ ही साथ टायर-काई धागे के निर्यात के लिए तत्काल से ही 31 दिसम्बर, 1977 तक पोतलदानों के लिए स्वीकृति दी जाए। लेकिन टायर काई धागे को छोड़कर 5एस और कम के काउन्ट्स में सभी प्रकार के सूती धागे के निर्यात के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

3. सूती धागे के पाव फिस्म और काउन्ट्स के निर्यात के लिए सभी संविदाओं को सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के पास पंजीकृत कराना होगा। परिषद् द्वारा सूती धागे के पोतलदान के लिए अनुमति, केवल ऐसी पंजीकृत संविदाओं के मद्दे ही दी जाएगी। पोतलदान के लिए मंजूरी को पोतलदान बिल पर पृष्ठांकित किया जाएगा। यू० के०, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रिया और यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों के लिए पोतलदान के संबंध में कंटे के वितरण की नीति के बारे में घोषणा, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा की जाएगी।

4. पोतलदानों को चाहिए कि वे प्रभावी किए गए सूती धागे के लदानों के ब्योरे प्रत्येक मास की 10 तारीख तक सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन को भेज दें। परिषद् का पता इस प्रकार है :—

इंजीनियरिंग सेन्टर,
पाचवीं मंजिल, 9, मैथ्यू रोड,
बम्बई-4

का० जे० शेपात्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Export Trade Control)

PUBLIC NOTICE No. 11—ETC(PN)/78

New Delhi, the 16th February, 1978

Subject : Export of cotton yarn from India under OGL-3.

F. No. 2/6/77-E.—Attention is invited to export (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(40) dated 16-2-78 and Public Notice No. 16 ETC(PN)/77 dated 8-8-77 as amended from time to time laying down the export policy of cotton yarn on the above subject.

2. In partial modification of the Public Notice No. 16-ETC(PN)/77 dated 8-8-77 relating to the export policy of cotton yarn, it has been decided to permit export of cotton yarn of all types and counts of 6s and above as well as tyre cord yarn with immediate effect to all destinations for shipment upto 31st December, 1978 within a specified ceiling. However cotton yarn of all types in counts of 5s and below excluding tyre cord yarn, will not be allowed for export.

3. All contracts for export of cotton yarn of the eligible types and counts shall be required to be registered with the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay. Shipment of cotton yarn will be allowed by the Council only against such registered contracts. Authorisation for shipment will be

endorsed on the shipping bills. In respect of shipment to the UK, the USA, Australia and the EEC member states, necessary announcements about the quota distribution policy will be made by the Cotton Textiles Export Promotion Council.

4. The shippers are required to submit to the Cotton Textiles Export Promotion Council by 10th of every month the details of the shipments of cotton yarn effected by them. The address of the Council is as under :

Engineering Centre,
9, Mathew Road,
5th Floor,
Bombay-400004.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

